



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 282] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 4, 1977/श्रावण 13, 1899

No. 282] NEW DELHI, MONDAY, JULY 4, 1977/ASADHA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 4th July 1977

S.O. 514(E). —Whereas a vacancy in the office of the President of India has occurred by reason of the death of Shri Fakhruddin Ali Ahmed on the 11th February, 1977;

And whereas under clause (2) of article 62 of the Constitution of India, an election to fill the said vacancy is required to be held as soon as possible after, and in no case later than six months from, the date of occurrence of the vacancy,

Now, therefore, in pursuance of sub-section (1) of section 4 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952 (31 of 1952), the Election Commission hereby appoints for the said election—

- (a) the 18th July, 1977 (Monday), as the last date for making nominations,
- (b) the 19th July, 1977 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) the 21st July, 1977 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures; and
- (d) the 6th August, 1977 (Saturday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken.

[No. 479/77]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 4 जुलाई, 1977

का० आ० 514 (अ) —तारीख 11 फरवरी, 1977 को श्री फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के कारण भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है;

और, भारत के संविधान के अनुच्छेद 62 के खण्ड (2) के अधीन, उक्त रिक्ति को भरने के लिए, निर्वाचन, रिक्ति होने की तारीख के पश्चात् यथाम्भव शीघ्र और हर अवस्था में छह मास बीतने के पहले किया जाना अपेक्षित है ;

अतः, अब, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का 31) की धारा 4 की उपधारा (1) के अनुगम्य में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन के लिए—

- (क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख 18 जुलाई, 1977 (सोमवार),
- (ख) नामनिर्देशनों की समीक्षा की तारीख 19 जुलाई, 1977 (मंगलवार) ;
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम 21 जुलाई, 1977 (बृहस्पतिवार), तथा तारीख
- (घ) वह तारीख जिसकी, यदि आवश्यक हो 6 अगस्त, 1977 (शनिवार) तो, मतदान होगा

एतद्वारा नियत करता है ।

[स० 479/77]

S.O. 515(E).—In pursuance of rule 7 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974 the Election Commission hereby—

- (a) fixes each of the places specified in column 1 of the Table below to be a place of polling at the Presidential election to be held in accordance with its notification No. 479/77 dated 4 July, 1977, and
- (b) with respect to each such place of polling, specifies in the corresponding entry in column 2 of the said Table the group of electors who will be entitled to vote at that place.

TABLE

Place of polling	Group of electors
(1)	(2)
(1) Room No. 62, First Floor, Parliament House, New Delhi.	Elected members of Parliament (excluding those who after intimation to the Election Commission intend to vote at any other place of polling) and any elected member of the Legislative Assembly of a State who on a special request made by him to the Election Commission to vote at the place of polling in New Delhi is permitted by the Election Commission to do so.
(2) Committee Room of the Andhra Pradesh Legislative Assembly Buildings, Hyderabad	Elected members of the Andhra Pradesh Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Hyderabad.

(1)

(2)

- (3) Room No. 2 of the Assam Legislative Assembly Building, Dispur Elected members of the Assam Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Dispur.
- (4) "Reading Room" of the Library (Upper Floor) in the Bihar Vidhan Sabha Buildings, Patna Elected members of the Bihar Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Patna.
- (5) Library of the Gujarat Legislative Assembly, Gandhinagar. Elected members of the Gujarat Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Gandhinagar.
- (6) Committee Room of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat, Vidhan Bhavan, Chandigarh. Elected members of the Haryana Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Chandigarh.
- (7) Main Committee Room of Himachal Pradesh Legislative Assembly building, Council Chamber, Simla Elected members of the Himachal Pradesh Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Simla.
- (8) Assembly Lobby, Jammu and Kashmir Legislative Assembly Building Srinagar Elected members of the Jammu and Kashmir Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Srinagar.
- (9) Committee Room (Room No. 118), Karnataka Legislature Secretariat, 1st Floor, Vidhana Soudha, Bangalore Elected members of the Karnataka Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Bangalore.
- (10) Press Room at the Ground Floor of the Kerala Legislative Assembly Buildings, Trivandrum. Elected members of the Kerala Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Trivandrum.
- (11) Committee Room No. 1 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Bhavan, Bhopal. Elected members of the Madhya Pradesh Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Bhopal.
- (12) Party Hall, 2nd Floor, Council Hall Fort, Bombay Elected members of the Maharashtra Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Bombay.
- (13) Committee Room of the Manipur Legislative Assembly, Imphal. Elected members of the Manipur Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Imphal.
- (14) Library Room of the Meghalaya Legislative Assembly, Shillong Elected members of the Meghalaya Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Shillong.
- (15) Committee Room in the Nagaland Legislative Assembly, Kohima. Any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Kohima.
- (16) Office Room of the Secretary, Orissa Legislative Assembly in the State Legislative Assembly Building at Bhubaneswar. Elected members of the Orissa Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Bhubaneswar.
- (17) Committee Room of the Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Vidhan Bhavan, Chandigarh. Elected members of the Punjab Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Chandigarh.

(1)	(2)
(18) Committee Room (No. 40) in the Rajasthan Legislative Assembly, Sawai Mansingh Town Hall, Jaipur.	Elected members of the Rajasthan Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Jaipur.
(19) Lounge of the Assembly Hall, Sikkim Legislative Assembly Building, Gangtok	Elected members of the Sikkim Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Gangtok
(20) Legislature Committee Room in Ground Floor of Secretariat Building, Fort St George, Madras.	Elected members of the Tamil Nadu Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Madras.
(21) Library Room of Tripura Legislative Assembly, Agartala.	Elected members of the Tripura Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Agartala
(22) Tilak Hall, Vidhan Bhawan, Lucknow	Elected members of the Uttar Pradesh Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Lucknow
(23) "Assembly Chambers" in the Assembly House, Calcutta	Elected members of the West Bengal Legislative Assembly and any elected member of Parliament who after intimation to the Election Commission intends to vote at the place of polling in Calcutta.

[No. 479/77(6)-I]

का० आ० 515 (अ).—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 7 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग—

- (क) नीचे दी हुई सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट स्थानों में से प्रत्येक स्थान को अपनी अधिसूचना संख्या 479/77, तारीख 4 जुलाई, 1977 के अनुसार होने वाले राष्ट्रपतीय निर्वाचन में मतदान का स्थान एतद्द्वारा नियत करता है; और
- (ख) ऐसे प्रत्येक मतदान के स्थान के बारे में, उन निर्वाचकों के समूह को जो उस स्थान पर मत देने के हकदार होंगे, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में तत्सम्बन्धी प्रविष्टि में एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट करता है।

सारणी

मतदान का स्थान	निर्वाचकों का समूह
(1)	(2)
1. कक्ष सं० 62, प्रथम खण्ड, ससद् भवन, नई दिल्ली।	ससद् के निर्वाचित सदस्य (उन सदस्यों को छोड़कर जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् किसी अन्य मतदान के स्थान पर मत देना चाहते हों) और किसी राज्य की विधान सभा का कोई निर्वाचित सदस्य, जो नई दिल्ली में मतदान के स्थान पर मत देने के लिए अपने द्वारा निर्वाचन आयोग से किए गए विशेष अनुरोध पर निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया गया हो

(1)

(2)

2. आन्ध्र प्रदेश विधान सभा भवन का समिति, कक्ष, हैदराबाद ।
आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और ससद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् हैदराबाद में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।
3. असम विधान सभा भवन का कमरा सं० 2, दिसपुर ।
असम विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और ससद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् दिसपुर में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।
4. बिहार विधान सभा भवन में पुस्तकालय का वाचन कक्ष (अपर पलोर), पटना ।
बिहार विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और ससद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् पटना में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।
5. गुजरात विधान सभा का पुस्तकालय, गांधी-नगर ।
गुजरात विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और ससद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् गांधीनगर में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।
6. हरियाणा विधान सभा सचिवालय का समिति कक्ष, विधान भवन, चंडीगढ़ ।
हरियाणा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और ससद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् चंडीगढ़ में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।
7. हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन के कौंसिल चैम्बर का मुख्य समिति कक्ष, शिमला ।
हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और ससद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् शिमला में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।
8. सभा गोष्ठी-कक्ष, जम्मू-काश्मीर विधान सभा भवन, श्रीनगर ।
जम्मू-काश्मीर विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और ससद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् श्रीनगर में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।
9. समिति कक्ष (कक्ष सं० 118), कर्नाटक विधान मंडल सचिवालय, प्रथम खण्ड, विधान सौध, बंगलौर ।
कर्नाटक विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और ससद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् बंगलौर में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।

(1)

(2)

- | | |
|---|--|
| <p>10. केरल विधान सभा भवन के भूमि-तल पर प्रेस कक्ष, त्रिखवनन्तपुरम ।</p> | <p>केरल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और संसद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् त्रिखवनन्तपुरम में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> |
| <p>11. मध्य प्रदेश विधान सभा भवन का समिति कक्ष सं० 1, भोपाल ।</p> | <p>मध्य प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और संसद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् भोपाल में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> |
| <p>12. पार्टी हाल द्वितीय खण्ड, कौंसिल हाल, फोर्ट, मुम्बई ।</p> | <p>महाराष्ट्र विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और संसद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् मुम्बई में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> |
| <p>13. मणिपुर विधान सभा का समिति कक्ष, इम्फाल ।</p> | <p>मणिपुर विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और संसद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् इम्फाल में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> |
| <p>14. मेघालय विधान सभा का पुस्तकालय कक्ष, शिलांग ।</p> | <p>मेघालय विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और संसद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् शिलांग में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> |
| <p>15. समिति कक्ष, नागालैंड विधान सभा भवन, कोहिमा ।</p> | <p>संसद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् कोहिमा में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> |
| <p>16. राज्य विधान सभा भवन में उड़ीसा विधान सभा के सचिव का कार्यालय कक्ष, भुवनेश्वर ।</p> | <p>उड़ीसा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और संसद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् भुवनेश्वर में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> |
| <p>17. पंजाब विधान सभा सचिवालय का समिति कक्ष, विधान भवन, चंडीगढ़ ।</p> | <p>पंजाब विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और संसद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् चंडीगढ़ में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> |
| <p>18. राजस्थान विधान सभा का समिति कक्ष (सं० 4), सवाई मानसिंह टाउन हाल, जयपुर ।</p> | <p>राजस्थान विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और संसद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् जयपुर में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> |

(1)

(2)

- | | |
|---|--|
| <p>19. असेम्बली हाल का विश्राम कक्ष, सिक्किम विधान सभा भवन, गंगटोक ।</p> <p>20. सचिवालय भवन के भूमि तल पर विधान मंडल समिति कक्ष, फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास ।</p> <p>21. त्रिपुरा विधान सभा का पुस्तकालय कक्ष, अगरतला ।</p> <p>22. तिलक हाल, विधान भवन, लखनऊ ।</p> <p>23 सभा भवन में "असेम्बली चैम्बर", कलकत्ता ।</p> | <p>सिक्किम विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और ससद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् गंगटोक में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> <p>तमिलनाडु विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और संसद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् मद्रास में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> <p>त्रिपुरा विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और संसद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् अगरतला में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> <p>उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और संसद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् लखनऊ में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> <p>पश्चिमी बंगाल विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और संसद् का कोई निर्वाचित सदस्य जो निर्वाचन आयोग को सूचित करने के पश्चात् कलकत्ता में मतदान के स्थान पर मत देना चाहता है ।</p> |
|---|--|

[सं० 479/77(6)-I]

S.O. 516 (E).—In pursuance of clause (b) of rule 7 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, the Election Commission hereby specifies the hours from 10 a.m. to 5 p.m. both inclusive to be the hours during which the poll will be taken at each place of polling fixed by the Commission in its notification No. 479/77(6) I, dated 4 July, 1977, for the Presidential election.

[No. 479/77(6)-II]

का० प्रा० 516(अ).—राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 7 के खण्ड (ख) के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग 10 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न, दोनों को सम्मिलित करते हुए, के बीच का समय एतद्द्वारा उस समय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसके दौरान, आयोग द्वारा राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए अपनी अधिसूचना सं० 479/77(6)-I तारीख 4 जुलाई, 1977 में नियत हर एक मतदान के स्थान पर, मतदान होगा ।

[सं० 479/77(6)-II]

S.O. 517 (E).—Besides the Returning Officer for the Presidential Election, 1977, who shall conduct the poll to be taken at the said election on the 6th August, 1977 at the place of polling in the Parliament House in New Delhi, the Assistant Returning Officers who are hereby specified in Column 1 of the Table below by the Election Commission under sub-rule (1) of rule 9 of the Presidential and Vice-Presidential Elections Rules, 1974, shall also conduct the poll at the said election on the said date and the place of polling at which each such Assistant Returning Officer shall conduct the poll is specified against him in Column 2 of the said Table:—

TABLE

Assistant Returning Officer	Place of polling
(1)	(2)
1. The Secretary, Andhra Pradesh Legislative Assembly, Hyderabad.	Committee Room of the Andhra Pradesh Legislative Assembly Buildings, Hyderabad.
2. The Secretary, Assam Legislative Assembly, Dispur.	Room No. 2 of the Assam Legislative Assembly Building, Dispur.
3. The Secretary, Bihar Legislative Assembly, Patna.	"Reading Room" of the Library (Upper Floor) in the Bihar Vidhan Sabha Buildings, Patna.
4. The Secretary, Gujarat Legislative Assembly, Gandhinagar.	Library of the Gujarat Legislative Assembly, Gandhinagar.
5. The Secretary, Haryana Legislative Assembly, Chandigarh.	Committee Room of the Haryana Vidhan Sabha Secretariat, Vidhan Bhavan, Chandigarh.
6. The Secretary, Himachal Pradesh Legislative Assembly, Simla.	Main Committee Room of the Himachal Pradesh Legislative Assembly Building, Council Chamber, Simla.
7. The Secretary, Jammu and Kashmir Legislative Assembly, Srinagar.	Assembly Lobby, Jammu and Kashmir Legislative Assembly Building, Srinagar.
8. The Secretary, Karnataka Legislative Assembly, Bangalore	Committee Room (Room No. 118), Karnataka Legislature Secretariat, 1st Floor, Vidhana Soudha, Bangalore.
9. The Secretary, Kerala Legislative Assembly, Trivandrum.	Press Room at the Ground Floor of the Kerala Legislative Assembly Building, Trivandrum.
10. The Secretary, Madhya Pradesh Legislative Assembly, Bhopal.	Committee Room No. 1 of the Madhya Pradesh Vidhan Sabha Bhavan, Bhopal.
11. The Secretary, Maharashtra Legislative Assembly, Bombay.	Party Hall, Second Floor, Council Hall, Terr, Bombay.
12. The Secretary, Manipur Legislative Assembly, Imphal.	Committee Room of the Manipur Legislative Assembly, Imphal.
13. The Secretary, Meghalaya Legislative Assembly, Shillong.	Library Room of the Meghalaya Legislative Assembly, Shillong.
14. The Secretary, Nagaland Legislative Assembly, Kohima.	Committee Room in the Nagaland Legislative Assembly Kohima.
15. The Secretary, Orissa Legislative Assembly, Bhubaneswar.	Office Room of the Secretary, Orissa Legislative Assembly in the State Legislative Assembly Building at Bhubaneswar.
16. The Secretary, Punjab Legislative Assembly, Chandigarh.	Committee Room of the Punjab Vidhan Sabha Secretariat, Vidhan Bhavan, Chandigarh.
17. The Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur.	Committee Room (No. 40) in the Rajasthan Legislative Assembly, Sawai Mansingh Town Hall, Jaipur.
18. The Secretary, Sikkim Legislative Assembly, Gangtok.	Lounge of the Assembly Hall, Sikkim Legislative Assembly Building, Gangtok.
9. The Secretary, Tamil Nadu Legislative Assembly, Madras.	Legislature Committee Room in the Ground Floor of Secretariat Building, Fort St. George, Madras.
20. The Secretary, Tripura Legislative Assembly, Agartala.	Library Room of Tripura Legislative Assembly, Agartala.

(1)

(2)

21. The Secretary, Uttar Pradesh Tilak Hall, Vidhan Bhawan, Lucknow
Legislative Assembly, Lucknow.

22. The Secretary, West Bengal Le- "Assembly Chambers" in the Assembly House Calcutta
Legislative Assembly, Calcutta

[No. 179/77(6)-III]

By Order,

A. N. SEN, Secy.

का० आ० 517 (अ).—राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1977 के लिए उस रिटनिंग आफिसर के अतिरिक्त जो उक्त निर्वाचन में 6 अगस्त, 1977 को नई दिल्ली के संसद् भवन में मतदान के स्थान पर होने वाले मतदान का संचालन करेगा, वे सहायक रिटनिंग आफिसर भी, जो राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय नियम, 1974 के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा नीचे की सारणी के स्तम्भ 1 में एतद्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं, उक्त निर्वाचन में उक्त तारीख को मतदान का संचालन करेंगे और मतदान का वह स्थान जहाँ ऐसा प्रत्येक सहायक रिटनिंग आफिसर मतदान का संचालन करेगा, उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में उसके सामने विनिर्दिष्ट है :—

सारणी

सहायक रिटनिंग आफिसर	मतदान का स्थान
(1)	(2)
1. सचिव, आन्ध्र प्रदेश विधान सभा, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश विधान सभा भवन का समिति-कक्ष, हैदराबाद ।
2. सचिव, असम विधान सभा, दिसपुर ।	असम विधान सभा भवन का कमरा संख्या 2, दिसपुर ।
3. सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।	बिहार विधान सभा में पुस्तकालय का वाचन कक्ष (अपर फ्लोर), पटना ।
4. सचिव, गुजरात विधान सभा, गांधीनगर ।	गुजरात विधान सभा का पुस्तकालय, गांधीनगर ।
5. सचिव, हरियाणा विधान सभा, चण्डीगढ़ ।	हरियाणा विधान सभा सचिवालय का समिति कक्ष, विधान भवन, चण्डीगढ़ ।
6. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला ।	हिमाचल प्रदेश विधान सभा भवन के काउन्सिल चैम्बर का मुख्य समिति कक्ष, शिमला ।
7. सचिव, जम्मू-कश्मीर विधान सभा, श्रीनगर ।	सभा गोष्ठी कक्ष, जम्मू-कश्मीर विधान सभा भवन, श्रीनगर ।
8. सचिव, कर्नाटक विधान सभा, बंगलौर ।	समिति कक्ष (कक्ष सं० 118) कर्नाटक विधान मंडल सचिवालय, प्रथम खण्ड, विधान सौध, बंगलौर ।

(1)

(2)

9. सचिव, केरल विधान सभा, तिरुवनन्तपुरम । केरल विधान सभा भवन पर के भूमि तल-प्रेस कक्ष, तिरुवनन्तपुरम ।
10. सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल । मध्य प्रदेश विधान सभा भवन का समिति कक्ष सं० 1, भोपाल ।
11. सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा, मुम्बई । पार्टी हाल, द्वितीय खण्ड, काउंसिल हाल, फोर्ट, मुम्बई ।
12. सचिव, मणिपुर विधान सभा, इम्फाल । मणिपुर विधान सभा का समिति कक्ष, इम्फाल ।
13. सचिव, मेघालय विधान सभा, शिलांग । मेघालय विधान सभा का पुस्तकालय कक्ष, शिलांग ।
14. सचिव, नागालैंड विधान सभा, कोहिमा । समिति कक्ष, नागालैंड विधान सभा भवन, कोहिमा ।
15. सचिव, उड़ीसा विधान सभा, भुवनेश्वर । राज्य विधान सभा भवन में उड़ीसा विधान सभा के सचिव का कार्यालय कक्ष, भुवनेश्वर ।
16. सचिव, पंजाब विधान सभा, चंडीगढ़ । पंजाब विधान सभा सचिवालय का समिति कक्ष, विधान भवन, चण्डीगढ़ ।
17. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर । राजस्थान विधान सभा का समिति-कक्ष (कक्ष सं० 40) सवाई मान सिंह टाउन हाल, जयपुर ।
18. सचिव, सिक्किम विधान सभा, गंगटोक । असेम्बली हाल का विश्राम कक्ष, सिक्किम विधान सभा भवन, गंगटोक ।
19. सचिव, तमिलनाडु विधान सभा, मद्रास । सचिवालय भवन के भूमि तल पर विधान मंडल समिति कक्ष, फोर्ट सेंट जॉर्ज, मद्रास ।
20. सचिव, त्रिपुरा विधान सभा, अगरतला । त्रिपुरा विधान सभा का पुस्तकालय कक्ष, अगरतला ।
21. सचिव, उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ । निलक हाल, विधान भवन, लखनऊ ।
22. सचिव, पश्चिमी बंगाल विधान सभा, कलकत्ता । सभा भवन में "असेम्बली चैम्बर", कलकत्ता ।

सं० 479 77(6)—III]

आदेश से,

ए० एन० सैन, सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977